



स मा चार

गिरीश गौतम राष्ट्रकुल संसदीय संघ इंडिया रीजन के सम्मेलन में हुए शामिल

भोपाल, 11 अप्रैल मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज कहा कि राष्ट्रकुल संसदीय संघ इंडिया रीजन के सम्मेलन में पारित होने वाले प्रस्तावों का बेहतर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होना चाहिए। श्री गौतम ने असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रकुल संसदीय संघ इंडिया रीजन के आठवें सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमरी, उपाध्यक्ष डॉ नूमल मोमिन, असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमांता बिस्वा शर्मा, अन्य राज्यों के पीठासीन अधिकारी और मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह भी मौजूद थे।

विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि इस सम्मेलन में हम युवाओं के राष्ट्रीय विकास और कल्याण में योगदान के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी मंथन किया जा रहा है कि युवाओं की ऊर्जा का देश की बेहतरी में कैसे उपयोग किया जा सकता है। यह बेहतर सोच है। सम्मेलन के समापन पर इसको लेकर प्रस्ताव भी निश्चित तौर पर पारित होंगे, लेकिन इसके साथ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि सम्मेलन में पारित होने वाले प्रस्तावों पर बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा क्या। हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि पारित प्रस्तावों पर ठोस ढंग से अमल हो। यदि प्रस्तावों पर बेहतर अमल नहीं हो पाया तो यह चिंता का विषय है। विधानसभा की ओर से मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार श्री गौतम ने गुवाहाटी के पहाड़ी क्षेत्र में विराजित प्रसिद्ध कामाख्या पीठ (मां कामाख्या देवी मंदिर) को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने इस आयोजन के लिए असम विधानसभा अध्यक्ष श्री दैमरी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके पुरुषार्थ के कारण सम्मेलन काफी बेहतर तरीके से आयोजित हुआ है।

श्री गौतम कल भी गुवाहाटी में रहेंगे।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव